

संध्या सिंह
संयुक्त निदेशक (एम और ई)
दूरभाष: 24364112
ई-मेल: sandhya.singh@nic.in

अ.शा.सं.डब्ल्यू-11018/07/2015-संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) का कार्यालय
दिनांक: 24-06-2015

विषय:- पुरी जिले, ओडिशा में होने वाले रथ यात्रा के दौरान ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता पर जागरूकता अभियान।

प्रिय,

जैसा कि आपको विदित है जुलाई माह के दौरान प्रत्येक वर्ष मांगलिक रथ यात्रा आयोजित की जाती है और संपूर्ण भारत से लाखों श्रद्धालू आकर्षित होते हैं। चूँकि रथ यात्रा के दौरान भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों भागों से बड़ी संख्या में श्रद्धालू आते हैं, अतः पेयजल के सुरक्षित हैंडलिंग और पेयजल की गुणवत्ता के बारे में और साथ ही खुले में शौच के खतरे और शौचालयों को बनवाने और अपने गाँवों/घरों में इनका प्रयोग करने के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए आक्रमक जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। अतः आपसे अनुरोध है कि पुरी जिले में आने वाले रथ यात्रा - 18 से 27 जुलाई, 2015 के दौरान रथ यात्रा मार्गों/स्थानों पर आक्रमक जागरूकता अभियान की शुरुआत कर इस प्लैटफार्म का उपयोग करें। नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। लोगों को जल एवं स्वच्छता मुद्दों के बारे में बात करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्टेज/स्टॉल रखे जा सकते हैं, जहाँ कि छोटी प्रदर्शनी रखी जा सकती है और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। रथ यात्रा के दौरान घोषणा के साथ ही ऑडियो संदेश दर्शाए जा सकते हैं। ये कुछ सांकेतिक गतिविधियाँ हैं। राज्य कुछ आक्रमक अभियान योजना तैयार कर सकती है और कार्यान्वित कर सकते हैं।

वर्ष के दौरान राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के तहत सहायता निधि से निधियाँ प्राप्त की जा सकती है।

सादर,

भवदीया,

(संध्या सिंह)

श्री पी.के. महापात्रा,
प्रधान सचिव, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता,
ओडिशा सरकार, सचिवालय,
भुवनेश्वर-751001
प्रति:- वेबसाइट पर डालने के लिए तकनीकी निदेशक (एनआईसी)